



**TRIVENI TURBINE LIMITED**  
**CORPORATE OFFICE**

8<sup>th</sup> Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201301, U.P., India  
T.: +91 120 4308000 | F : +91 120 4311010-11  
www.triveniturbines.com

By E-filing

Date: August 2, 2022

BSE Ltd.  
e-mail- corp.relations@bseindia.com  
Thru : BSE Listing Centre

**STOCK CODE: 533655**

National Stock Exchange of India Ltd.,  
e-mail cmlist@nse.co.in  
Thru : NEAPS

**STOCK CODE: TRITURBINE**

Dear Sirs,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015 as amended, we enclose copies of the newspaper advertisement pertaining to the financial results of the company for the (Q1 FY 23) ended June 30, 2022. The advertisement was published in Business Standard (English & Hindi) and Business Line (English) on 2nd August, 2022.

This is for your kind information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,

**For Triveni Turbine Ltd.**

**Rajiv Sawhney**  
**Company Secretary**  
**Membership No A 8047**

**Encl: As above**

PayTV continues to hold on. But, as television gets a resurrection online, the future is digital

# Trends that can futureproof broadcasting



VANITA KOHLI-KHANDEKAR  
Pune, 1 August

Or now, pay TV seems to be holding on. There are more pay TV homes in the world than online video-on-demand subscriptions such as the over-the-top (OTT) streaming platforms. But that is the case globally; break it up by country and a different picture emerges. In the United States, for instance, 81 per cent households have at least one OTT subscription; 51 per cent have pay TV. The ratio will keep changing in favour of online, says a report on The Future of Pay TV and Streaming Video by Maria Rua Aguiar, senior research director, media and entertainment, at UK-based Omdia.

"The crossover from pay TV to SVoD (streaming video-on-demand) happened in 2020. But it is not necessarily about pay TV's


decline. Some technologies within pay TV, such as cable, are in decline. IPTV, on the other hand, is rising," says Tony Gunnarsson, principal analyst TV, video, and advertising, Omdia. IPTV, or internet protocol television, is video delivered on a closed proprietary network, such as LAN (local area network) or WAN (wide area network). It is different from OTT in that OTT is delivered on the open internet.

Gunnarsson points to the mixed trends in pay TV around the world; growing in South Korea, Indonesia, and France while declining sharply in the US, India, and Brazil. The interest in bundles that offer high-end cable channels with OTT and internet access continue to drive


## PAY TV, BIGGEST INCREASE/DECREASE IN SUBSCRIPTION NUMBERS, 2021-2022



## GLOBAL VIDEO SUBSCRIPTIONS



## US REVENUE BY MEDIA TYPE - EXCLUDING ONLINE VIDEO ADVERTISING (\$m)



The figures include projected numbers. Source: Omdia

## FUTURE OF TV PART- III

"As a European, when I think of public service broadcasters such as the BBC (Britain) or NRK (Norway). Most of the public service broadcasters have already made the transition successfully. The future proofing of broadcasting is happening through the iPlayer (the BBC's digital offering) and it is not in competition with Netflix or Sky. They are doing what they do best, investing in local content. Therefore, broadcast TV will continue through adoption of newer methods," says Gunnarsson.

Series concludes

## RECOVERY TRACKER

# Dip in mobility, air traffic

Improvement in freight, vehicle registration numbers

SACHIN P. MAMPATIA & KRISHNA KANT  
Mumbai, 1 August

Many economic indicators showed subdued activity during the latest week. People moved around less. Workplace visits were down by 0.9 per cent, as shown by data from search engine Google. It uses anonymised location data to track how people are moving during the pandemic. Transit stations such as bus stations and train stations showed a 1.3 per cent decline (see chart 1).


There was marginally lower traffic congestion in major cities, showed data from global location technology firm TomTom International. In New Delhi, Monday 9 am traffic congestion was 33 per cent below 2019 levels in the latest week compared to the 31 per cent decline seen in the previous one. Mumbai traffic congestion was down 38 per cent, compared to the 36 per cent decline seen earlier (see chart 2).

Power generation was flat over the previous week, but the gap over 2019 levels widened. The power producers in the country generated 4,295 million units (MUs) of electricity per day on average in the latest week. It was 4,297 MUs per day in the previous week. In comparison, power generation was 3,650 MUs per day during the corresponding week in 2019 (see chart 3).

People got on fewer flights. For example, there were 2,497 flights that carried little over 321,000 passengers on Sunday, July 31. There had been 2,540 flights with 325,000 passengers on the same day in the previous week (see chart 4).


There was a narrowing of the gap in vehicle registrations. Indians registered 12.8 per cent fewer vehicles

### 1: FEWER GROCERY AND PHARMACY VISITS




Note: Latest update is as of July 27, 2022, based on location data as processed by the company. The percentage change is compared to a baseline value for the same day of the week, calculated on a median basis during the 5-week period, Jan 3-Feb 6, 2020. The chart shows a seven-day rolling average of visits to each category. Residential data refers to change in time spent at home. Source: Google LLC, Google COVID-19 Community Mobility Reports, Our World in Data

### 2: DIP IN TRAFFIC CONGESTION



Note: Refers to change in Monday morning (9 am) traffic congestion from 2019 (as of July 25, in percentage points). Change in traffic congestion from 2019 (as of August 1, in percentage points). Source: TomTom International

### 3: WIDENING POWER GENERATION GAP OVER 2019




Note: Power generation based on reporting day data (million units, 7-day rolling average). Source: National Load Despatch Centre

### 4: DECLINING AIR TRAFFIC



Note: Shows 7-day rolling average numbers for domestic flights based on departing flights and passengers. Averages have been used wherever archival data was unavailable. Source: Ministry of Civil Aviation

### 5: VEHICLE REGISTRATIONS 12.8% BELOW 2019 LEVELS



Note: Based on road transport offices (RTO) for which latest data is available. Source: Ministry of Road Transport and Highways

### 6: HIGHER FREIGHT NUMBERS



Note: For seven days ending Sunday. Source: Indian Railways

## Lawn bowls: Indian women ensure CWG medal

PRESS TRUST OF INDIA  
Birmingham, 1 August

The Indian lawn bowls team assured itself a historic first ever Commonwealth Games medal

after defeating New Zealand 16-13 in the semis of the women's fours event, here on Monday. This will be India's maiden final appearance in the women's fours format of the competition.

The women's fours team comprising Lovely Choubey (lead), Panki (second), Nayanmoni Saikia (third) and Rupa Rani Turky (skip) will face South Africa in the gold medal

clash on Tuesday. "We cannot express our feelings in mere words. We have fought as a team and now our journey doesn't end here," an emotional Turky said. "We have to play in a similar fashion against South Africa and do what hasn't been done before"

# Triveni TURBINES

Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)
Total Income from Operations	25,904	18,406	85,224
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	5,075	3,651	16,660
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	5,075	3,651	36,479
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	3,833	2,775	27,020
Total Comprehensive income for the period [ Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,673	2,772	29,004
Equity Share Capital	3,233	3,233	3,233
Other Equity			82,424
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	1.18	0.86	8.36
(b) Diluted (in ₹)	1.18	0.86	8.36

**Notes:**  
1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)
Total Income from Operations	24,455	18,223	81,137
Profit/(Loss) before tax	4,282	3,411	33,973
Profit/(Loss) after tax	3,188	2,534	24,950
Total Comprehensive Income	2,877	2,498	24,990

2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2022 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

**For TRIVENI TURBINE LIMITED**  
Sd/-  
Dhruv M. Sawhney  
Chairman & Managing Director

Place: Bengaluru  
Date: August 1, 2022

Regd. Office: A-44, Hosiery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16 Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website: www.triveniturbines.com CIN: L29110UP1995PLC041834

#BSMorningShow

**Infocus**

Will the govt be fifth-time lucky in bailing out discoms?

**Today's Special**

How did India pull off a successful Chess Olympiad?

**Market Insight**

Will the market up-move sustain in August?

presents

**THE Business Standard MORNING SHOW**

Mon - Fri | 8am

Get the answers in today's episode


Visit [mybs.in/MorningShow](http://mybs.in/MorningShow) or scan this code to watch

bsindia bsindia business-standard.com

# देश में मंकीपॉक्स से पहली मौत, कार्यबल का गठन

शाहन जैकब

पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान में सोमवार को केरल के त्रिशूर जिले के एक युवक की मौत मंकीपॉक्स से होने की पुष्टि की है। यह देश में मंकीपॉक्स से मृत्यु का पहला मामला है। वहीं राजस्थान में मंकीपॉक्स बीमारी का पहला सदिग्ध मामला सामने आया है। मंकीपॉक्स के सदिग्ध लक्षणों वाले एक युवक को यहां एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके नमूनों को जांच के लिये भेजा गया है।



का आदेश दिया था। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार 19 जुलाई को युवक से जांच के लिए नमूने लिए गए थे और 20 जुलाई को पुष्टि के रिपोर्टों संक्रमित आई थी लेकिन इसके बावजूद उसने केरल को यात्रा की। राज्य सरकार द्वारा 19 जुलाई को ही हवाई अड्डों पर इसके लिए जांच शुरू कर दी गई थी लेकिन अधिकारी युवक के मामले का पता लगाने में विफल रहे। चिंता को बात यह है कि उसके संपर्क में आने से प्रभावित लोगों को संस्था अधिक भी हो सकती है।

युवक के परिवार ने 27 जुलाई को बाद उसकी हालत बिगड़ने के बाद पुष्टि में किंग गार्प परीक्षणों के बारे में अधिकारियों को सूचित किया। युवक का अंतिम संस्कार 31 जुलाई को कोविड -19 के प्रोटोकॉल के हिसाब से किया गया था। रविवार को जिला पब्लिक स्वास्थ्य अधिकारी ने पुनर्रूप में एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसके बाद सोमवार को पंचायत द्वारा स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के लिए चार कार्यकर्ताओं को बैठक हुई।

## 'अफ्रीकन स्वाइन फीवर' के नये मामले

केरल के वायनाड और कन्नूर जिलों में 'अफ्रीकन स्वाइन फीवर' रोग के नये मामले सामने आए हैं। वायनाड जिले में 'अफ्रीकन स्वाइन फीवर' संक्रमण के मामले सामने आने पर वहां करीब एक सप्ताह पहले 300 से अधिक सूअरों को इस रोग का एक-एक मामला सामने आया है।

## बढ़ रहा खतरा

केंद्र सरकार ने वीके पॉल की अध्यक्षता में देश में मंकीपॉक्स के मामलों को देखने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है। राजस्थान में भी मंकीपॉक्स बीमारी का पहला सदिग्ध मामला सामने आया। मामले सामने आने के बाद, अधिकारियों ने हवाई अड्डों पर निगरानी बढ़ा दी। राज्य सरकार ने भी युवक को मौत की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जोशी ने कहा कि साकार इलाज में देरी के कारणों की जांच करेगी। दूसरी तरफ केंद्र का कार्यबल राज्य सरकार को बीमारी से निपटने में मदद करेगा। अब तक दुनिया भर में मंकीपॉक्स के लगभग 21,000 मामले सामने आए हैं, जिसमें मौत की दर कोविड की तुलना में कम है।

# अचिंत ने तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया

अचिंत शेटली ने सोमवार को राइटमंडल खेलों में पुरुषों के 73 किलोग्राम भार वर्ग में नए रिकॉर्ड के साथ देश को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। परिचय बंगाल के 21 वर्ष के शेटली ने स्नैच में 143 किग्रा वजन उठाया जो राइटमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड है। उन्होंने लीग एंव जर्क में 170 किग्रा समेत कुल 313 किग्रा वजन उठाया।



शेटली ने स्नैच में 143 किग्रा वजन उठाया जो राइटमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड है

अचिंत शेटली ने राइटमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। वह अपने शान्त स्वभाव और दृढ़ता के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने इस विशेष उपलब्धि के लिए बहुत मेहनत की है। उन्हें पश्चिम की प्रतियोगिताओं के लिए मेरी शुभकामनाएं। बंगाल को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्य के हावड़ा जिले के भारतीयोत्सव की यह

उपलब्धि अनगिनत देशवासियों को प्रेरित करेगी। वनजी ने टूट किया 'यह वास्तव में हम सभी के लिए एक बड़ा क्षण है कि परिचय बंगाल के युवा खिलाड़ी अचिंत शेटली ने राइटमंडल खेलों में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है उन्हें हार्दिक बधाई। उन्होंने कहा, 'आपकी सफलता के अंगनत लोगों के लिए प्रेरणा का काम करेगी। आपके भाविय के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। शेटली ने जीत के बाद कहा, 'मैं इस जीत से बहुत खुश हूँ। मैंने इस पदक के लिए कड़ी मेहनत की थी। मेरे भाई, मां, मेरे कोच और मेरा के बलिदान से मुझे यह पदक मिला। उन्होंने कहा, 'यह मेरी जिंदगी में पहली बड़ी प्रतियोगिता थी और मैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिये दिन रात का आभार व्यक्त करता हूँ। यह पदक मुझे जिंदगी के हर पहलू में मदद करेगा। अब यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शेटली से पूछा गया कि वह इस पदक को किसे समर्पित करना चाहेगा, उन्होंने कहा, 'मैं इसे अपने स्वीयों व माता, अपनी मां और मेरे कोच विजय शर्मा को समर्पित करना चाहूंगा। मेरे कोच ने मुझे प्रेरणा दी है और वक्रे की तरह समझा और जब भी मैं कोई गलती करता था तो वह मुझे बचाए रखते थे।'

शेटली ने जीत के बाद कहा, 'मैं इस जीत से बहुत खुश हूँ। मैंने इस पदक के लिए कड़ी मेहनत की थी। मेरे भाई, मां, मेरे कोच और मेरा के बलिदान से मुझे यह पदक मिला। उन्होंने कहा, 'यह मेरी जिंदगी में पहली बड़ी प्रतियोगिता थी और मैं इस मुकाम पर पहुंचने के लिये दिन रात का आभार व्यक्त करता हूँ। यह पदक मुझे जिंदगी के हर पहलू में मदद करेगा। अब यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। शेटली से पूछा गया कि वह इस पदक को किसे समर्पित करना चाहेगा, उन्होंने कहा, 'मैं इसे अपने स्वीयों व माता, अपनी मां और मेरे कोच विजय शर्मा को समर्पित करना चाहूंगा। मेरे कोच ने मुझे प्रेरणा दी है और वक्रे की तरह समझा और जब भी मैं कोई गलती करता था तो वह मुझे बचाए रखते थे।'

## पेलोसी सिंगापुर पहुंची, ताइवान पर अटकलें

अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैसी पेलोसी ने अपने दक्षिण एशिया दौर की सुरुआत करते हुए सोमवार ताइवान सिंगापुर पहुंचकर वहां के नेताओं से मुलाकात की। विश्व मंत्रावली ने कहा कि पेलोसी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लूंग, राष्ट्रपति हेलमिया याकूब और अन्य केरलित सदस्यों से मुलाकात की। मंत्रावली ने एक बयान में कहा कि ली और पेलोसी ने यूक्रेन में युद्ध,


ताइवान और चीन की मुख्यभूमि के आसपास तनाव होने और जलवायु परिवर्तन पर भी चर्चा की। ली ने क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए अमेरिका-चीन के बीच संतुलन के महत्व को रेखांकित किया। पेलोसी ने ताइवान का दौरा कर सकने संबंधी खबरों की पुष्टि नहीं की। चीन इसे अपना क्षेत्र होने का दावा करता है।

## संजय राउत ईडी की हिरासत में

मुंबई की एक विशेष अदालत ने धनशोधन के मामले में गिरफ्तार शिवसेना के सांसद संजय राउत को सोमवार को 4 अगस्त तक के लिए प्रारंभ निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। राउत के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को लेकर शिवसेना के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं शहराध्य के उपाध्यक्ष मंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा कि शिवसेना नेता

संजय राउत के खिलाफ प्रारंभ निदेशालय की कार्रवाई निश्चित साधनों के आधार पर हो रही है। ईडी ने राउत को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में पेश कर आठ दिन की हिरासत मांगी थी। ईडी की ओर से पेश विशेष लोका अभियोजक हितेश वेणोवकर ने अदालत से कहा कि राउत और उनका

परिहार अपराध से अज्ञित धन के प्रत्यक्ष लाभार्थी हैं। राउत की ओर से पेश परिष्कृत अधिवक्ता अशोक मुंजारी ने कहा कि आरोप असत्य हैं और ये राजनीतिक प्रतिक्रिया के चाले लगाए गए हैं। ईडी ने मुंबई की एक चाल के पुनर्विचार में कथित अनियमितताओं से जुड़े एक मामले में रविवार मध्यरात्रि को राउत को गिरफ्तार कर लिया था।



**Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022**

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)
Total Income from Operations	25,904	18,406	85,224
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	5,075	3,651	16,660
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	5,075	3,651	36,479
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	3,833	2,775	27,020
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,673	2,772	29,054
Equity Share Capital	3,233	3,233	3,233
Other Equity			82,424
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)			
(a) Basic (in ₹)	1.18	0.86	8.36
(b) Diluted (in ₹)	1.18	0.86	8.36

**Notes :**

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	Quarter ended		Year ended
	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)
Total Income from Operations	24,455	18,223	81,137
Profit/(Loss) before tax	4,282	3,411	33,973
Profit/(Loss) after tax	3,188	2,534	24,950
Total Comprehensive Income	2,877	2,498	24,990

2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2022 are available on the Stock Exchange's websites ([www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)) and on the Company's website ([www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com)).

**For TRIVENI TURBINE LIMITED**  
Sd/-  
**Dhruv M. Sawhney**  
Chairman & Managing Director

Place: Bengaluru  
Date: August 1, 2022

Regd. Office: A-44, Hossery Complex, Phase II Extension, Noida, U.P. - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website: [www.triveniturbines.com](http://www.triveniturbines.com) CIN: L29110UP1995PLC041334



**एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड**

CIN: L65999DL1998PLC093849, वेबसाइट: [www.sbicard.com](http://www.sbicard.com)  
ईमेल: [investor.relations@sbicard.com](mailto:investor.relations@sbicard.com)

**पंजीकृत कार्यालय:** यूनिट 401 और 402, चौथा तल, अत्यावलि मल्लिकाना टावर, ई-12.3, नेताजी सुभाष प्लेस, वजीरपुर, नई दिल्ली 110 304, भारत, फोन: +91 (11) 6126 8100

**कॉर्पोरेट कार्यालय:** दूसरा तल, टावर-बी, इन्फिनिटी टावर, शिवपुर एम साइबर सिटी, ब्लॉक 2 बिल्डिंग 3, डीएलएफ फेज 2, नूरुग्राम, हरियाणा 122 002, भारत, फोन: +91 (124) 458 9803

**24वीं वार्षिक साधारण सभा की जानकारी**

कंपनी के सदस्यों की चौबीसवीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) बुधवार, 26 अगस्त, 2022 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) अन्य ऑडियो विडियो क्लिपिंग (ऑडियो) के जरिए प्रातः 11:00 बजे (भारतीय समयानुसार) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत अंतर्गत बनाए गए सभी लागू प्रावधानों और भारतीय प्रभुत्व और विनियम बॉर्ड के निर्देशों से जुड़े संवेदन और प्रारंभिकता आवश्यकता) विधिवत, 2015, के साथ एजीएम की सूचना में बताए गए व्यवसाय से जुड़े संवेदन करने के लिए कॉर्पोरेट सूचना के माध्यम (एनसीसी) द्वारा जारी किए गए क्रमांक: 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 5 मई 2020, 13 जनवरी 2021, 08 दिसंबर 2021, 14 दिसंबर 2021 और 5 मई 2022 के सामान्य परिचय नं. 14/2020, 17/2020, 20/2020, 02/2021, 19/2021, 21/2021, 21/2022 और इन संघ में अन्य परिचय (जिन्हें सांख्यिक रूप से 'समसंघ परिचय' कहा जाएगा) के साथ और क्रमांक: 12 मई 2020, 15 जनवरी 2021 और 13 मई 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बॉर्ड (बीबी) द्वारा जारी किए गए परिचय नं. SEBI/HO/CFD/CMD/CIIR/PO/2020/79, SEBI/HO/CFD/CMD/CIIR/PO/2021/11 और SEBI/HO/CFD/CMD/CIIR/PO/2022/62 और इन संघ में अन्य परिचय में अन्य परिचय के रूप में 'संबंधित परिचय' कहा जाता है। अनुपालन निकायों/टीएन विभागीय लिमिटेड (एनएसडीएल) की वेबसाइट [www.evoting.scri.com](http://www.evoting.scri.com) पर भी उपलब्ध होंगे।

कंपनी अपने सभी सदस्यों को एजीएम की सूचना में बताए गए सभी परस्वलों पर उनके वोट डालने के लिए ई-मतदान की सुविधा (रिमोट ई-मतदान) भी प्रदान कर रही है। कंपनी एजीएम के दौरान ई-मतदान प्रणाली के जरिए एजीएम की सुविधा भी प्रदान कर रही है (ई-मतदान)। ईमेल/भौतिक रूप में शेयर खरीदने वाले सदस्यों को रिमोट ई-मतदान, ई-मतदान और वीसी/ऑडियो के जरिए एजीएम में भाग लेने की शक्ति प्रदान की जाएगी, जिसे समय आने पर भेजा जाएगा।

उन शेयरधारकों द्वारा रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम बनाने के लिए, जिन्हें वेध ईमेल आइडी की अनुपस्थिति के कारण एजीएम की सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है, कंपनी ने अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के द्वारा संबंधित परिचयों के अनुपस्थिति वाले आइडी का पंजीकरण करने के लिए उपयुक्त व्यवस्थाएं की हैं।

ईमेल आइडी और अन्य विवरणों के पंजीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित है:

- संस्थापक पंजीकरण के लिए:**

अद्यतित परिचयों के अनुसार जिन शेयरधारकों ने अपने ईमेल आइडी हमारे साथ पंजीकृत नहीं किए हैं और इनके परिचयपत्र/रूप उन्हें सूचना नहीं भेजी जा सकी है, वे जोधे दिए गए लिंक पर जाकर अपने रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट 'लिंक इमेल/रजिस्ट्रार ईमेल/रजिस्ट्रार लिमिटेड' द्वारा अपनी ईमेल आइडी का पंजीकरण करवा सकते हैं: [https://linktime.com.in/emails/reg\\_mail\\_register\\_mail](https://linktime.com.in/emails/reg_mail_register_mail) और इसके बाद बताई गई पंजीकरण प्रक्रिया का पालन कर सकते हैं। ईमेल आइडी सफलतापूर्वक पंजीकृत हो जाने के बाद, शेयरधारकों को एजीएम की सूचना और वीडियो वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक रिपोर्ट की सूचना की संघर्ष कपी प्राप्त होगी, जिसमें वित्तीय विवरण, बॉर्ड की रिपोर्ट, ऑडिटर की रिपोर्ट और उनके साथ अनुलग्नक किए जाने के लिए आवश्यक दूसरे दस्तावेज तथा एनएसडीएल की ओर से एजीएम के लिए ई-मतदान में भाग लेने में सक्षम होने हेतु उपयोगकर्ता आइडी से पासवर्ड प्राप्त होंगे। ईमेल आइडी के पंजीकरण से संबंधित प्रश्नों के लिए शेयरधारक [rtt.helpdesk@linktime.com](mailto:rtt.helpdesk@linktime.com) पर लिख सकते हैं और ई-मतदान से संबंधित प्रश्नों के लिए आप एनएसडीएल के [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) पर लिख सकते हैं।
- स्थायी पंजीकरण के लिए:**

यह स्पष्ट किया जाता है कि स्थायी पंजीकरण के लिए, सदस्य कृपया अपना ईमेल आइडी का पंजीकरण:

  - ईमेल होल्डिंग्स के संबंध में, डिजिटल डिवाइस पर रिमोट ई-मतदान प्रक्रिया का पालन करके संबंधित डिजिटल डिवाइस (डीपी) के साथ पंजीकृत करें।
  - भौतिक होल्डिंग्स के संबंध में, कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, यानी 'लिंक इमेल/रजिस्ट्रार ईमेल/रजिस्ट्रार लिमिटेड' को अपना आवेदन इन हूनु बनाए गए परिचय के जरिए भेजें।
- बैंक विवरण का पंजीकरण:**

कृपया अपने डिजिटल डिवाइस (डीपी) से संबंधित ईमेल आइडी द्वारा सूचना गयी प्रक्रिया के अनुसार अपने ईमेल अकाउंट में अपना ईमेल आइडी और बैंक खाते के डिटेल्स दर्ज करें। भौतिक होल्डिंग्स के संबंध में, कृपया कंपनी के ऑडिटर, यानी की 'लिंक इमेल/रजिस्ट्रार ईमेल/रजिस्ट्रार लिमिटेड', से संपर्क करें।

एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड के लिए  
पावल मित्तल छात्राङ  
कंपनी सेक्रेटरी और अनुपालन अधिकारी

तारिख: 2 अगस्त, 2022  
स्थान: नूरुग्राम

# Two of five assesses filed ITR in last six days

About 72 lakh filed on the last day; time limit for verification cut to 30 days

## SHISHIR SHINHA

New Delhi, August 1  
Around 41 per cent of income tax returns for assessment year 2022-23 (AY23) were filed during the last six days before the due date — July 31 — with the total number reaching 5.83 crore.


Meanwhile, the Income Tax Department has cut the time limit for verification (either electronically or submission of ITR-V) of return to 30 days from 120 days earlier. This will be applicable for returns filed on or after August 1.

July 31 was the due date for filing ITR for assesses whose accounts need not be audited, including individuals (salaried and non-salaried) and members of a Hindu Undivided Family (HUF), among others.

**Late fee up to ₹5,000**  
Now, non-filers among these categories can file the returns till December 31 but with late fee up to ₹5,000.

Businesses, whose accounts need not be audited, are required to file the returns by October 31, while it will be Novem-

## Keeping track of ITRs



ber 30 for transfer pricing cases. Revenue Secretary Tarun Bajaj told BusinessLine that returns of 5.83 crore are almost similar to 5.89 crore filed last year. There is a gap of just 6 lakh

and we expect more and more returns to be filed, though with late fee, till December 31," he said. This year, too saw a rush like last year. Last year, more than

46.11 lakh ITRs were filed on the last day. This year, the number is over 72 lakh. In fact, the last five days saw over 2.4 crore returns filed, which is around 41 per cent of total returns filed.

**ITR verification**  
Meanwhile, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) has said the time limit for e-verification or submission of ITR will now be 30 days from the date of transmitting/uploading the date of return of income electronically. However, this will not be applicable for returns filed on or before July 31. Those assesses will continue to get 120 days. At present, there are two options for verification: e-

verifying returns online, or sending a physical copy of the duly signed ITR-V to CPC, Bengaluru.

The CBDT has also clarified that if returns are filed online and e-verified/ITR-V submitted within 30 days of transmission of data, the date of filing returns will be treated as the date of furnishing the return. However, if returns are filed but e-verified or ITR-V submitted is beyond the time limit of 30 days, the date of e-verification/ITR-V submission will be treated as the date of furnishing the return of income and all consequences of late filing of returns under the Act shall follow.

# Steel tariffs: India seeks talks with UK at WTO

Britain has admitted that extending safeguard measures could be in violation of WTO regulations

## AMIT SEN

New Delhi, August 1  
India has sought consultations with the UK at the WTO over the country's proposed extension of safeguard tariffs and quota restrictions on import of certain steel products for two more years, till 2024. New Delhi has said that has substantial interest in the matter.

On June 29, UK Trade Secretary Anne Marie Trevelyan announced that the safeguard measures-tariff increases to check increased imports of particular products that have caused 'serious injury' to domestic producers—on the five steel categories, for which it was due to expire in June, would be extended for a further two years.

This takes up the total number of steel items on which safeguard import tariffs of 25 per cent (to be imposed on quantities outside quotas) would continue till June 2024 to 15 products.

Last year, the UK government's newly-established Independent Trade Remedies Authority (ITA) had recommended that safeguard action on only 10 steel items should be extended till June 2024, while that on five products be temporarily extended till June 2022.

"Having a substantial interest, India requests consultations with the United Kingdom under Article 12.3 of the Agreement on Safeguards," India's representation to the WTO Committee on Safeguards on July 28 said. The UK is an important export destination for steel products from India with exports of iron and steel products in 2021-22 estimated at \$420.78 million.

Consultations sought at the WTO by a nation or to get more information on a particular measure imposed by another member that is adversely affecting it, at times, could lead to formal disputes if concerns are not resolved satisfactorily.

## Impact on Sitem

Interestingly the British government has itself admitted that further extension of safeguard measures on the five items—tin mill products, non-alloy and other alloy quarto plates, merchant bars and light sections, non-alloy and other alloy wire rod and angles, shafts, and sections of iron or non-alloy steel—may be in violation of WTO rules.

"The government wishes to make it clear to Parliament that the decision to extend the safeguard on the five product categories departs from our international legal obligations under the relevant WTO agreement, as relates to the five product categories. However, from time to time, issues may arise where the national interest requires action to be taken which may be in tension with the normal rules or procedures," UK International Trade Secretary Anne Marie Trevelyan stated on June 29.

Significantly, last year India had proposed to impose additional import duties worth \$92 million on select products from the European Union as a retaliation against similar safeguard measures put in place by the bloc on steel imports from the country.

Although the safeguard measures extended by the UK, which has now separated from the EU, are similar to the measures of the EU, at this point of time India is only looking at consultations with the UK on the matter. "India is hopeful that it will be able to resolve the issue of safeguard measures with the UK satisfactorily through the consultations," an industry source said.

# With the current stock position, CIL confident of meeting power demand

State-owned miner's output rises 11% in July

## SHOBHARAOY

Kolkata, August 1

With close to 36 million tonnes (mt) of stock at its pilehead and around 11.5 mt at various loading points awaiting shipment, Coal India Ltd (CIL) is confident that the current coal stock situation is comfortable to meet the present power demand unless there is a sudden spike.

The total stock at CEA-monitored thermal plants was 29.6 mt as on July 30, up from around 24 mt in the same period last year. Higher supplies from CIL helped power plants build stocks to the tune of 1.04 lakh tonnes per day in July this year, which is also the highest for this fiscal, said a press statement issued by CIL.

"The stock level of as many as 78 plants is 'critical' (stock which is less than 25 per cent of the normative level) as on July 30 this year, as against 24 plants last year, according to data available on the National Power Portal.

According to Rupesh Sankhe, analyst at Elara Capital India, there has been a



strong power demand in the last few quarters and CIL will look to ramp up its production and supplies to meet the demand. "We are not getting adequate renewable energy generation and the price of imported coal is very high, making domestic coal highly competitive. CIL will continue to ramp up production and supplies to meet the demand. They have kept some inventory to meet any possible decline in production during monsoon months (August-September), but post-September, we expect production to be ramped up further," Sankhe told BusinessLine.

**Ramping up production**  
The state-owned miner produced 207.1 mt during April-July, which is almost 24 per cent higher compared with 166.4 mt in the same period last year.

For July alone, CIL produced 47.3 mt, almost 11 per cent

more compared with the same period last year, thereby maintaining double-digit growth for fourth months on trot this fiscal, despite the monsoon slowing down its production. Amid the escalated demand from power stations during the current financial year, CIL supplied 199.4 mt to the sector progressive till July 22, a 19 per cent growth compared with 167.3 mt in the same period last year.

According to Ritabrata Ghosh, Vice-President, ICGA, on the one hand, CIL has been ramping up production and supplies to the power sector, and on the other, production from captive mines is up by nearly 79 per cent in Q1 FY23 on a year-on-year basis. This should help avert any possible shortfall in supplies.

CIL has been able to maintain a strong production run rate so far this fiscal, and at this rate, it should be able to produce close to 700 mt during the current fiscal. "Their production track record as of now is much better than what most people had expected. If they are able to maintain this run rate, they should be able to touch a production of around 700 mt by the end of this fiscal," Ghosh said.

# Cement companies' margins to hit 7-year low on high input cost

Industry to add 32 mtpa fresh capacity this fiscal

## OUR BUREAU

Mumbai, August 1

Notwithstanding the increase in volumes, the operating margins of cement companies this fiscal are expected to hit the lowest in the last seven years due to a sharp rise in input cost.

Cement sales' volumes are expected to grow 7.8 per cent this fiscal to about 388 million tonnes, said an ICGA report.

The demand for rural housing was supported by a robust rabi harvest and better crop realisation. The progress of kharif sowing, amid a modest hike in minimum support price of such crops for the upcoming farming season, will determine farm sentiments.

**Infra expansion bodes well**  
The significant increase of 24 per cent in infrastructure expenditure to ₹7.5 lakh crore in FY23 Budget led by ₹1.8 lakh crore for roads and ₹1.4 lakh crore for railways is expected to augur well for cement demand. Notwithstanding potential



Cement sales' volumes are expected to grow by 7.8 per cent this fiscal to 388 million tonnes

challenges due to increasing interest rates, demand for urban housing will be led by growth in employee headcounts and salaries for many IT/ITe's companies, demand for better and larger homes on account of the shift to the hybrid working model in customer segments, B2B and related sectors is likely to support demand going forward, said the report.

**Operating income higher, but...**  
Anupama Reddy, Vice-President of ICGA, said operating income in this fiscal is expected to increase by about 13 per cent, majorly supported by volume growth and higher sales real-

isation. However, the elevated input costs will adversely impact the operating margins which is expected to decline by 440-490 basis points to about 16.4 per cent, the lowest in last seven years, said Reddy.

The industry will add a capacity of 29.32 million tonne per annum this fiscal against last fiscal's addition of about 25 mtpa.

The eastern region is expected to lead the expansion and may add around 16-17 mtpa followed by the central region at about 6-7 mtpa this fiscal. The cement industry's capacity utilisation is likely to remain moderate at around 68 per cent on an expanded base.

## Triveni TURBINES

**Statement of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2022**

(₹ in lakhs, except per share data)

Particulars	Quarter ended			Year ended
	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)	
Total Income from Operations	25,904	18,406	85,224	
Net Profit/(Loss) for the period (before Tax and Exceptional Items)	5,075	3,651	16,660	
Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	5,075	3,651	36,479	
Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	3,833	2,775	27,020	
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	3,673	2,772	29,004	
Equity Share Capital	3,233	3,233	3,233	
Other Equity			82,424	
Earnings per share of ₹ 1/- each (not annualised)				
(a) Basic (in ₹)	1.18	0.86	8.36	
(b) Diluted (in ₹)	1.18	0.86	8.36	

**Notes:**

1. Summarised Standalone Unaudited Financial Performance of the Company is as under:

Particulars	Quarter ended			Year ended
	30-Jun-2022 (Unaudited)	30-Jun-2021 (Unaudited)	31-Mar-2022 (Audited)	
Total Income from Operations	24,455	18,223	81,137	
Profit/(Loss) before tax	4,282	3,411	33,973	
Profit/(Loss) after tax	3,188	2,534	24,950	
Total Comprehensive Income	2,877	2,498	24,990	

2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter ended June 30, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2022 are available on the Stock Exchange's websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website (www.triveniturbines.com).

**For TRIVENI TURBINE LIMITED**

Sd/-  
**Dhruv M. Sawhney**  
Chairman & Managing Director

Place: Bengaluru  
Date: August 1, 2022

Regd. Office: A-41, Hosery Complex, Phase II Extension, Noida, UP - 201 305  
Corp. Office: 8th Floor, Express Trade Towers, 15-16, Sector-16A, Noida - 201 301, U.P., India  
Website: www.triveniturbines.com, CIN: L29110UP1995PLC041834

# ITC Limited

**Extract of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the Quarter ended 30th June, 2022**

(₹ in Crores)

Sl. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		3 Months ended 30.06.2022	Twelve Months ended 31.03.2022	Corresponding 3 Months ended 30.06.2021	3 Months ended 30.06.2022	Twelve Months ended 31.03.2022	Corresponding 3 Months ended 30.06.2021
1	Total Income from Operations	18632.85	62335.53	13388.14	20152.00	67041.31	14687.80
2	Net Profit / (Loss) for the period (before tax and Exceptional Items)	5539.55	19829.53	4015.35	5950.49	20722.99	4467.31
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional Items)	5539.55	19829.53	4015.35	5950.49	20722.99	4467.31
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional Items)	4169.38	15057.83	3013.49	4472.03	15503.13	3344.15
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	3833.66	15631.68	3190.12	3916.47	15583.80	3577.97
6	Equity Share Capital	1233.79	1232.33	1230.88	1233.79	1232.33	1230.88
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)		60167.24			61223.24	
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (not annualised):						
	1. Basic (₹):	3.38	12.22	2.45	3.56	12.37	2.66
	2. Diluted (₹):	3.38	12.22	2.45	3.56	12.37	2.66

**Note:**

a) The above is an extract of the detailed format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The Unaudited Financial Results and this extract were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company at the meeting held on 1st August, 2022. The full format of the Statements of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results are available on the Company's website (www.itcportal.com) and on the websites of the National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com), BSE Limited (www.bseindia.com) and The Calcutta Stock Exchange Limited (www.cseindia.com).

b) The Limited Review, as required under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, has been completed and the related Reports have been forwarded to the Stock Exchanges. These Reports do not have any impact on the above 'Results and Notes' for the Quarter ended 30th June, 2022 which needs to be explained.

For and on behalf of the Board

Registered Office: Virginia House, 37 J. L. Nehru Road, Kolkata-700 071  
Date: 1st August, 2022  
Place: Kolkata, India

Sd/-  
**Director & Chief Financial Officer**

Sd/-  
**Chairman & Managing Director**

Website: www.itcportal.com | E-mail: [endingvalue@itc.in](mailto:endingvalue@itc.in)  
Phone: +91-33-2288 9371 | Fax: +91-33-2288 0655 | CIN: L16005WB1910PLC001985

FMCG | Hotels | Paperboards & Packaging | Agri Business | Information Technology